

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2014—चैत्र 21, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2014

फा. क्र. 17 (ई) 61-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला रीवा, दतिया एवं शिवपुरी (कुल 3 जिले) हेतु लोकसभा निर्वाचन 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 15 मार्च 2014 से 16 मई 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. वर्मा, सचिव.

#### जिला रीवा ( म.प्र. )

#### लोकसभा चुनाव 2014 हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की शक्तियां प्रदान करने हेतु सूची

जिले का नाम	सरल क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र का नाम जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	1	श्री प्रदीप कुमार डेहरिया	प्रबंधक	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रीवा	प्रथम श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	2	श्री सुनील कुमार मिश्रा	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रीवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	3	श्री पी. एम. कोल	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) यूनिट, रीवा.	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	4	श्री जगन्नाथ तिवारी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रीवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	5	श्री व्ही. के. खरे	उपयंत्री	जल मौसम विज्ञान विभाग संभाग क्र.-1, रीवा.	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	6	श्री बलवन्त सिंह परिहार	सहायक यंत्री	मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	7	श्री गंगेश्वर प्रसाद त्रिपाठी	वरिष्ठ उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग सेतु उप संभाग, रीवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	8	श्री एन. एन. सिंह	अनुविभागीय अधिकारी.	भू-अर्जन एवं पुनर्वास उप संभाग, गोविन्दगढ़, रीवा.	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
रीवा	9	श्री सावन सोनी	सहायक यंत्री	भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र-1, त्योंथर, रीवा.	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

### जिला शिवपुरी ( म.प्र. )

#### लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों का प्रस्ताव भेजने बाबत प्रपत्र

सरल क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री बी. पी. पटेरिया	सहायक प्रबंधक	लेखा एम. पी. एग्रो कार्या., शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
2.	श्री आर. के. शर्मा		एम.पी.आर.आर.डी.ए.पी.आई.यू. 2 पिछौर	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
3.	श्री डी. के. सागर	महाप्रबंधक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
4.	श्री भागीरथ छीपा	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
5.	श्री ए. पी. पाण्डे	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-2, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
6.	श्री सत्यपाल सेकरन	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, नरवर	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
7.	श्री बलवन्त सिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक	वन मण्डल, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
8.	श्री एन. एस. राजपूत	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पी.आई.यू.-1, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
9.	श्रीमति निलम मोर्य	नायब तहसीलदार शिवपुरी.	तहसील शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
10.	श्री बलवीर सिंह तोमर	सचिव	मंडी समिति, पिछौर	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
11.	श्री के. एन. भार्गव	सचिव	मंडी समिति, खनियाधाना	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
12.	श्री के. के. तिवारी	अधीक्षक	भू-अभिलेख, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
13.	श्री अनिल शर्मा	जिला खनिज अधिकारी.	खनिज विभाग, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
14.	श्री अनुराग तिवारी	वन क्षेत्रपाल	वन मण्डल, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
15.	श्री एस. पी. एस. राजपूत	सहायक संचालक	एस.डी.ओ. कृषि, कोलारस	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
16.	श्री सेक हसरूद्दीन	एस.डी.ओ.	आर.ई.एस. कोलारस	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	श्री सुरेन्द्र कुमार अटेरिया	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोलारस.	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
18.	श्री मनोज शर्मा	सचिव	मण्डी समिति, बदरवास	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
19.	श्री मिठ्ठन सिंह रघुवंशी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, नरवर	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
20.	श्री सुरेश कुमार	उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं., पिछौर	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
21.	श्री रविन्द्र झारिया	जिला प्रबंधक	एम. पी. एग्रो, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
22.	श्री पी. के. हजेला	उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं., डिबीजन-2, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
23.	श्री राजेन्द्र तिवारी	उपयंत्री	जनपद पंचायत, पोहरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
24.	श्री एस. के. बाजपेयी	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
25.	श्री रामसिंह मोर्य	उपमंत्री	लोक निर्माण विभाग, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
26.	श्री राकेश गुप्ता	उपयंत्री	जनपद पंचायत, पिछौर	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
27.	श्री बी. आर. शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत, कोलारस	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
28.	श्री देवेन्द्र त्रिवेदी	उपयंत्री	जनपद पंचायत, बदरवास	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी
29.	श्री रामप्रकाश राजपूत	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, शिवपुरी	-	सम्पूर्ण जिला शिवपुरी

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

**जिला दतिया ( म.प्र. )**

**विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों का ड्यूटी आदेश**

जिले का नाम	सरल क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दतिया	1	श्री एल. पी. शर्मा	एस.डी.ओ.	वन विभाग, दतिया	म. प्र. शासन की सेवा में कार्यपालिक अधिकारी.	सम्पूर्ण जिले के लिए
दतिया	2	श्री सतीष शर्मा	निरीक्षक	नापतौल, दतिया	-''-	-''-
दतिया	3	श्री वी. के. जैन	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा., दतिया	-''-	-''-
दतिया	4	श्री प्रेम सिंह राजपूत	बी.ई.ओ.	विकासखण्ड, सेवढा	-''-	-''-
दतिया	5	श्री भारत भूषण गंगराड़े	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	जनपद पंचायत, सेवढा	-''-	-''-
दतिया	6	श्री एल. एन. चौरसिया	सहायक संचालक	कृषि विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	7	श्री दीपक सक्सैना	खनिज निरीक्षक	खनिज विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	8	श्री राकेश कुमार शर्मा	उपयंत्री, राजघाट	उपसंभाग क्र.-1, दतिया	-''-	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दतिया	9	श्री डी.एस.डी. सिद्धार्थ	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी.	भूमि संरक्षण, दतिया	म. प्र. शासन की सेवा में कार्यपालिक अधिकारी.	सम्पूर्ण जिले के लिए
दतिया	10	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दतिया.	-''-	-''-
दतिया	11	श्री डी. आर. राजपूत	उपसंचालक	कृषि विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	12	श्री जी. सुनईया	अधीक्षण यंत्री	सिंचाई विभाग राजघाट परियोजना, दतिया.	-''-	-''-
दतिया	13	श्री डी. के. श्रीवास्तव	महाप्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दतिया	-''-	-''-
दतिया	14	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	बी.आर.सी.	जनपद शिक्षा केन्द्र, सेवड़ा	-''-	-''-
दतिया	15	श्री कैलाश स्वर्णकार	सहायक मत्स्य अधिकारी.	मत्स्य विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	16	श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, दतिया	-''-	-''-
दतिया	17	श्री बी. के. कौशल	सहायक प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	18	श्री ऋषभ कुमार जैन	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	नगर परिषद, इन्दरगढ़	-''-	-''-
दतिया	19	श्री बी. पी. शर्मा	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि., दतिया	-''-	-''-
दतिया	20	श्री राजकुमार चौधरी	सहायक यंत्री	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, दतिया	-''-	-''-
दतिया	21	श्री यू. सी. अग्रवाल	सहायक महाप्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा., दतिया	-''-	-''-
दतिया	22	श्री डी. पी. अनुरागी	कार्यपालन यंत्री	राजघाट गुण नियंत्रण, दतिया	-''-	-''-
दतिया	23	श्री अरविन्द तोमर	बी.एस.सी.	शिक्षा विभाग, सेवड़ा	-''-	-''-
दतिया	24	श्री शिवसिंह	सहा. प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	25	श्री डी. पी. अहिरवार	सहायक प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	26	श्री एस. एस. प्रजापति	जिला विपणन अधिकारी.	विपणन कार्यालय, दतिया	-''-	-''-
दतिया	27	श्री संजय श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	28	श्री रमेश चन्द्र दुबे	सचिव	मण्डी समिति	-''-	-''-
दतिया	29	श्री बी. के. जोशी	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग, इन्दरगढ़	-''-	-''-
दतिया	30	श्री हरनोद शर्मा	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग, भाण्डेर	-''-	-''-
दतिया	31	श्री बी. डी. वर्मा	बी.ई.ओ.	विकासखण्ड दतिया	-''-	-''-
दतिया	32	श्री ए. पी. प्रजापति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	जनपद पंचायत, भाण्डेर	-''-	-''-
दतिया	33	श्री आर.पी.एस. मावई	एस.ए.डी.ओ.	कृषि विभाग, भाण्डेर	-''-	-''-
दतिया	34	श्री दीपक सतपुते	ई.ई.	राजघाट डिस्ट्रीब्यूरी नं. 9	-''-	-''-
दतिया	35	श्री डी. के. गौर	कार्यपालन यंत्री	राजघाट संभाग क्र. 9	-''-	-''-
दतिया	36	श्री महेश प्रसाद पटैरिया	एस.डी.ओ.	राजघाट, दतिया	-''-	-''-
दतिया	37	श्री आर. पी. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	मुख्य नहर संभाग, भाण्डेर	-''-	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दतिया	38	श्री संदीप सोहेल	अनुविभागीय अधिकारी	मुख्य नहर संभाग, भाण्डेर	म. प्र. शासन की सेवा में कार्यपालिक अधिकारी.	सम्पूर्ण जिले के लिए
दतिया	39	श्री दिनेश कुमार सोनी	ए.ई.	राजघाट डिस्ट्र. संभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	40	श्री एस. के. निरंजन	सी.डी.पी.ओ.	विकास परि. ग्रामीण	-''-	-''-
दतिया	41	श्री कोकसिंह दादौरिया	प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	42	श्री एस. एन. जाटव	एस.डी.ओ.	राजघाट, दतिया	-''-	-''-
दतिया	43	श्री ए. के. त्रिपाठी	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट उपसंभाग क्र. 8	-''-	-''-
दतिया	44	श्री डी. के. शुक्ला	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट डि. उपसंभाग 29, दतिया	-''-	-''-
दतिया	45	श्री एम. के. जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	अंतर्व्यवसायी, दतिया	-''-	-''-
दतिया	46	श्री करम सिंह	मंडी सचिव	मंडी सचिव, भाण्डेर	-''-	-''-
दतिया	47	श्री एस. के. मिश्रा	प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	48	श्री नितिन वर्मा	सहायक मत्स्य अधिकारी.	मत्स्य विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	49	श्री सतीश श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	म.प्र. कृषि मार्केटिंग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	50	श्री प्रभाराव मोरे	सहायक यंत्री	मार्केटिंग बोर्ड, दतिया	-''-	-''-
दतिया	51	सुश्री ममता चतुर्वेदी	जिला महिला बाल विकास अधिकारी.	कार्यालय महिला बाल विकास, दतिया.	-''-	-''-
दतिया	52	श्री चेतन चौहान	अनुविभागीय अधिकारी	लघु सिंचाई, दतिया	-''-	-''-
दतिया	53	श्री चेताराम गडरिया	सहायक यंत्री	राजघाट, दतिया	-''-	-''-
दतिया	54	श्री आनंदकंद गुप्ता	सहायक परियोजना अधिकारी.	शिक्षा विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	55	श्री दिलीप व्यास	सहायक परियोजना अधिकारी.	शिक्षा विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	56	श्री विनोद शर्मा	अंकेक्षण अधिकारी	सहकारिता विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	57	श्री रामवीरसिंह तोमर	परियोजना अधिकारी	शहरी विकास अभिकरण, दतिया	-''-	-''-
दतिया	58	श्री एस.जी.एस. जैदी	खेल अधिकारी	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	59	श्री आर. के. तिवारी	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	60	श्री सुरेन्द्र शर्मा	कार्यपालन यंत्री	मुख्य नहर संभाग, भाण्डेर	-''-	-''-
दतिया	61	श्री हेमन्त श्रीवास्तव	सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति, दतिया	-''-	-''-
दतिया	62	श्री सर्वेश तिवारी	सहायक संचालक	उद्यानिकी विभाग	-''-	-''-
दतिया	63	श्री एस. पी. गुप्ता	योजना अधिकारी	शिक्षा विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	64	श्री आर. एम. मिश्रा	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग	-''-	-''-
दतिया	65	श्री आर. एस. दांगी	प्राध्यापक	पी. जी. कालेज, दतिया	-''-	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दतिया	66	श्री कुंजबिहारी गोस्वामी	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी.	प्रौढ़ शिक्षा, दतिया	म. प्र. शासन की सेवा में कार्यपालिक अधिकारी.	सम्पूर्ण जिले के लिए
दतिया	67	श्री के. पी. सिंह गुर्जर	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी.	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला दतिया	-''-	-''-
दतिया	68	श्री शरद सिद्धार्थ	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दतिया	-''-	-''-
दतिया	69	श्री एस.आर. लाहौरिया	सहा. प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	70	श्री एम. पी. शर्मा	सहा. प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	71	श्री एम. एस. सिसौदिया	सहा. प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	72	श्री बी. के. सक्सेना	अनुविभागीय अधिकारी	लहार, शाखा नहर उपसंभाग क्र. 1, इन्दरगढ़, जिला दतिया.	-''-	-''-
दतिया	73	श्री एस. एस. गौतम	प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	74	श्री अरविन्द्र उपाध्याय	सी.डी.पी.ओ.	ग्रामीण-1, दतिया	-''-	-''-
दतिया	75	श्री डी. के. विश्वकर्मा	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवा, दतिया	-''-	-''-
दतिया	76	श्री अभय राहुल	सहायक प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	77	श्री ए. के. गुप्ता	प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	78	श्री दिनेश चौरसिया	सहायक आयुक्त	सहकारिता विभाग	-''-	-''-
दतिया	79	श्री वृजेश जाटव	सहायक प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दतिया	-''-	-''-
दतिया	80	श्री ओ. पी. सिंह	सी.डी.पी.ओ.	ग्रामीण-2, दतिया	-''-	-''-
दतिया	81	श्री एम. बी. शर्मा	सहायक संचालक	आत्मा, दतिया	-''-	-''-
दतिया	82	श्री सियाराम शर्मा	बी.आर.सी.	सर्वशिक्षा अभियान दतिया	-''-	-''-
दतिया	83	श्री जी. एस. गोरख	सहायक संचालक	आत्मा, दतिया	-''-	-''-
दतिया	84	श्री आर. डी. कनेरिया	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट गुण नियंत्रण संभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	85	श्री यशवंत सिंह गौर	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट गुण नियंत्रण संभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	86	सुश्री ज्योति बघेल	डी.एस.ओ.	खाद्य विभाग, दतिया	-''-	-''-
दतिया	87	श्री अवधेश त्रिपाठी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	नगरपालिका परिषद, भाण्डेर	-''-	-''-
दतिया	88	श्री अरुण कुमार नामदेव	सहायक यंत्री	नगरपालिका, दतिया	-''-	-''-
दतिया	89	श्रीमती ऊषा पी. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	जनपद पंचायत, दतिया	-''-	-''-
दतिया	90	श्री नरेश शर्मा	मुख्य नगरपालिका दतिया.	नगरपालिका, दतिया	-''-	-''-
दतिया	91	श्री के. के. पाराशर	खेल अधिकारी	शिक्षा विभाग, दतिया	-''-	-''-

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.